

ICRA Limited

August 29, 2020

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers **Dalal Street** Mumbai 400 001, India Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the extracts of unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of ICRA Limited (the "Company") for the first quarter ended June 30, 2020 published in the following newspapers on August 29, 2020, pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman) Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

BOARD MEET SOON

ITC mulls merging 3 arms with itself

Consequent to it, Sunrise and

its two arms — Sunrise Sheet-

grah and Hobbits International

Foods — also became wholly-

owned subsidiaries of ITC.

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 28

DIVERSIFIED **BUSINESS ENTITY** ITC on Friday said it is considering merger of its three wholly-owned subsidiaries — Sunrise Foods, Hobbits International Foods and Sunrise Sheetgrah — with itself.

Aboard meeting of the company has been convened for this on September 4, 2020, ITC informed in a regulatory filing. "The board of directors of

the company will consider a proposal for amalgamation of Sunrise Foods Private Limited, Hobbits International Foods Private Limited and Sunrise Sheetgrah Private Limited, wholly-owned subsidiaries, with the company, at its meeting convened for Friday, September 4, 2020," ITC said.

On July 27, ITC had announced to acquire spices manufacturer Sunrise Foods in an allcash deal valued at ₹2,150 crore.

ITC had said the acquisition of Sunrise Food, engaged primarily in the business of spices, will help it to augment its portfolio in the segment, where it has already presence with its brand Aashirvaad.

'Revenues of Delhi hotels declined 44.3% during January-July'

New Delhi, August 28

DELHI SAW A year-on-year decline of 44.3% in revenue per available room (RevPAR) in the hotel sector between January and July, property consultant JLL India said on Friday. However, this fall is the most modest when compared with all other major cities in India, it added.

"During the lockdown months between April and June, many hotels in Delhi served as quarantine and medical staff housing facilities," JLL India Hotels and Hospitality Group said in a statement.

The city is among the first key markets to bring the Covid-19 situation under control with a high recovery rate, JLL India said. Delhi has gradually opened its borders to facilitate business travel movement from the neighbouring cities of Gurgaon and Noida, it added. —PTI

Indiabulls Ventures says to raise ₹588 crore from foreign investors

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi. August 28

INDIABULLS VENTURES ON Friday said it will raise ₹588 crore by issuing preferential shares to certain foreign investors. The decision was taken by

meeting held on Friday (August 28, 2020), the company said in a regulatory filing. The board approved the preferential offer and issue of

the board of directors in a

an aggregate of up to 3,36,00,000 equity shares, approximately 5.5% of the post-preferential issue share capital of the company, at an

The board approved the preferential offer and issue of an aggregate of up to 3,36,00,000 equity shares

issue price of ₹175 per equity share, for cash consideration, to certain foreign investors, it said. "The total equity investment by the investors would

alent to \$80 million in the company,"Indiabulls Ventures said. A total of six investors will infuse the equity capital into the company, with Ribbit Cay-

aggregate to ₹588 crore, equiv-

ded to NWI Emerging Market Fixed Income Master Fund. Inteligo Bank and First Royalty Ventures LLC will be getting

offered 1,05,00,000 shares,

while 84,00,000 shares exten-

42,00,000 equity shares each. TIMF Holdings will be offered 37,80,000 shares and Think India Opportunities Master Fund LP will get 25,20,000 shares of the company.

The board of directors, among other things, approved the appointment of Sameer Gehlaut as chairman and CEO of the company, it said. Divvesh B Shah has been approved to be redesignated as the COO of the company, it said.

man IN Holdings VI being info**edge**

INFO EDGE (INDIĂ) LIMITED CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi–19 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095 Web: http://www.infoedge.in/; email: investors@naukri.com

PUBLIC NOTICE FOR ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF INFO EDGE (INDIA) LTD.

Members of Info Edge (India) Ltd. ("Company") are hereby informed that in view of the continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and SEBI circular dated May 12, 2020 (collectively referred to as "Relevant Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ or Other Audio/Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of Members at a common venue.

Members are further informed that the 25th AGM of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 22, 2020, at 05:30 pm., through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Act read with the Relevant Circulars to transact the business (es) as set out in Notice of the 25th AGM of the Company which would be circulated for convening the AGM in due course of time.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid Relevant Circulars and holding shares of the Company as on Friday, August 21, 2020 (Cut-off date for sending the notice). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.infoedge.in and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

- 1. In case you have not registered your e-mail address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your e-mail id for obtaining AGM Notice along with the Annual Report 2019-20:
- a. You may temporarily get your e-mail registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA") by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and following the registration process as guided thereafter. In case of any queries, shareholder may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in, under Help section or call on Tel no.: 022-49186000.
- b. For permanent registration of e-mail address, the shareholders are however requested, in respect of electronic holdings, to register their e-mail address with the Depository through concerned Depository Participants with whom you hold your demat account. In respect of physical holdings, please send your e-mail address for registration to the RTA at https://linkintime.co.in/EmailReg/ Email Register.html providing Folio No., name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (front & back), PAN (Self attested scanned copy of PAN card, AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card);
- c. Those shareholders who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail addresses validated with their Depository Participants/the Company's RTA. In case of any queries, shareholder may write either to the Company at investors@naukri.com or to the RTA at aforesaid email id provided above.
- 2. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for Remote e-voting or e-voting in the AGM is as under:
- a. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@naukri.com.
- b. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@naukri.com.

Particulars

Total Income from

deterral account

balance and tax

Profit before net

ance and tax

Profit before excepti-

onal items, net movement in regulatory

movement in regulatory

deferral account bal-

Profit before tax after

Operations

Place: Noida Date: August 28, 2020

By Order of the Board of Directors For Info Edge (India) Ltd. (MM Jain) SVP-Secretarial & Company Secretary

Consolidated

71,249

55,285

55,285

270,280

177,907

177,253


Quarter ended

(Inzedited)

67,372

44,634

39,431



appare meneral e metarian



CIN: L40101HP1966GOI008409

Regd Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla-171006, H.P. (INDIA) Liasion Office: NBCC Complex, Tower-I, East Kidwai Nagar, New Delhi. Telephone: 0177-2672324, Fax: 0177-2670737 Email: cs.sjvn@sjvn.nic.in Website: www.sjvn.nic.in

38,414 54,565 155,936 38,782 55,162 197,150 net movement in regulatory deferral account balance Net Profit after tax 42,054 165,189 30,393 42,251 from continuing operations Total Comprehensive 29,854 41,684 163,387 30,136 41,581 164,323 Income after tax Paid-up equity share 392,583 392,980 392,593 392,583 357,580 392,583 capital (Face value of share ₹10/- each) Other equity excluding 782,551 784,628 Revaluation Reserve Earnings Per Share for continuing operations (before net movement in regulatory deterral account balance) (of ₹10/- each) (not annualised) (in ₹) 1.07 3.80 0.79 1.08 3.82 0.78 Basic & Diluted 10 Earnings Per Share for continuing operations (after net movement in regulatory deferral account balance) (of ₹10/- each) (not 0.77 1.07 4.20 0.77 1.08 4.23 annualised) (in ?)

Extract of the Unaudited Financial Results for

the Quarter ended 30th June, 2020 Standalone

71,245

55,783

55.183

Year ended

(Uraudited) [Audited]

28.06.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.06.2019

270,761

177,251

175,642

Quarter anded

67,489

44,354

39,181

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Dislosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results of the Company are available on the investor section of our website http://www.stym.nic.lin and under Corporate Section of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at http://www.bseindia.com & http://www.nseindia.com.

For and on Behalf of Board of Directors

(Nand Lal Sharma) Chairman & Managing Director DIN:03495554

CAREER POINT LIMITED Registered & Corporate Office: CP Tower-1, Road No.1, IPIA, Kota-324005 (Raj.)

CIN-L72200RJ2000PLC016272 | Ph: +91-744-3040000 | website: www.cpil.in | E-mail: investors@cpil.in

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30,2020

(₹ in Lakhs Except Per Share Data)

PARTICULARS	Quarter Ended (30/06/2020)	Year Ended (31/03/2020)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2019)	
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
Total Income from Operation (net)	1,381.26	10,461.29	2536.56	
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	751.61	2,718.43	849.95	
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	751.68	2,718.60	850.06	
Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,816.29	1,816.29	1816.29	
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	8			
Earnings Per Share (EPS)	91			
Basic & Diluted EPS	4.14	14.97	4.68	

PARTICULARS

Total Income from Operatiosn (net)

palance sheet of previous year

Earnings Per Share (EPS)

Place: Kota (Rajasthan)

Date: August 28", 2020

asic & Diluted EPS

Net Profit from Ordinary Activities after tax

Net Profit for the period after tax and Mino

aid-up Equity Share Capital (Face value of

Reserves excluding Revaluation Reserve (

Summarised Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30°, 2020 is as under:

Quarter Ended (30/06/2020)	Year Ended (31/03/2020)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2019)
(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
484.49	5,214.18	1653.43
333.53	1,642.92	483.72
333.53	1,642.92	483.72
1,816.29	1,816.29	1816.29
	(4)	×
	(30/06/2020) (Unaudited) 484.49 333.53 333.53 1,816.29	(30/06/2020) (31/03/2020) (Unaudited) (Audited) 484.49 5,214.18 333.53 1,642.92 333.53 1,642.92 1,816.29 1,816.29

- The IND-AS compliant financial results for the Quarter ended June 30°, 2020 have been subjected to limited review. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results provide true and fair view of Company's
- The above results, duly reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors in their meeting held on August 28°, 2020. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind-AS) w.e.f 01.04.2017 as notified by the Ministry of Corporate Affairs and accordingly these financial results for the Quarter ended June 30,2020 are in compliance with Ind AS.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30°,2020 filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpil.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR CAREER POINT LIMITED

Chairman, Managing Director and CEO DIN-00185711

PRAMOD MAHESHWARI



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749 Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.:+91-11-23357940-45 • Website: www.icra.in • Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020 (₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,249.79	20,778.26	5,137.73
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,364.44	9,205.20	2,335.89
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,364.44	9,205.20	2,335.89
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	998.27	6,497.98	1,491.10
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,041.37	6,444.14	1,480.81
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		57,287.92	
8	Earnings per share (of ₹10/- each)			
- 9	Basic:	10.38	67.55	15.50
	Diluted:	10.38	67.55	15.50

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020 (₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)
1	Total income from operations	6,961.89	32,108.84	7,703.63
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,329.36	13,147.59	3,144.98
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,329.36	13,147.59	3,144.98
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,704.89	9,723.77	2,053.68
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,737.71	9,661.24	2,042.48
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		69,196.35	
8	Earnings per share (of ₹10/- each)			
	Basic :	17.48	99.98	21.10
	Diluted :	17.48	99.98	21.10

As disclosed earlier, the Company has been in the process of addressing certain ongoing matters.

First, in respect of an adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") initiated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries, SEBI issued an order imposing a penalty of ₹ 25 lakh under section 15HB of the SEBI Act, 1992 on the Company. Further, SEBI issued a Show Cause Notice ("SCN") for enhancement of penalty amount. The Company has filed an appeal challenging the adjudication order before the Securities Appellate Tribunal (the "SAT") and deposited the penalty amount of ₹ 25 lakh without prejudice to such appeal. The said appeal is pending before the SAT. Both the matters are sub-judice and the Company has made adequate provision in this regard. The Company has also been cooperating with government agencies and responding to

Second, the Board of Directors ("Board") had appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). During the examination of the aforesaid Representations, certain counter allegations were made by one of the two former officials, for which the Board appointed a second set of external experts, to examine such allegations.

The external experts examining the Representations had concluded their examination and the findings indicated

that the conduct of the aforesaid officials was not in conformity with certain applicable regulations and Company policies relating to credit rating activities. The aforesaid officials are no longer in the employment of the Company. The key findings alongwith remediation measures have been submitted to SEBI on July 29, 2020. The external experts have expressed that no evidence was found suggesting ex-facie that the ratings examined as part of the examination were inflated (i.e. were unsupported by ratings analysis).

Further, as per external experts, this is subject to the limitation that the determination of whether or not any ratings are supported by ratings analysis is a qualitative technical matter that was beyond the scope of the examination, as the examination was not aimed at reviewing the appropriateness of rating opinions on merits. The findings of the second set of external experts do not indicate any material deficiencies with applicable regulations and Company policies.

The findings of the external experts have been presented to the Board members. The Board has taken appropriate measures in the best interest of the Company and its various stakeholders with regard to the outcome of the examination.

Third, the Company directly received another anonymous representation during the year ended March 31, 2020 against certain of its existing officials and the examination thereof is in progress. Fourth, the Company had received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group.

The Company had submitted its responses to SEBI on such observations dated August 14, 2019. There has been no further development in this matter. While the Company has made a provision for penalty on a best estimate basis with regards to the Adjudication

Proceeding, the impact of uncertainties arising from the above matters is currently unascertainable. However, based on the legal opinions given by external counsels, the Company does not foresee an action from the regulator(s) that could adversely affect the functioning of the Company. Management's response to comments of the statutory auditors in the Limited Review Report

- With regards to comments of the statutory auditors in paragraph 4 of the limited review report, pertaining to ongoing matters, it is submitted that - Firstly, in respect of matters relating to Adjudication Proceeding, the same are sub-judice and the Company has made adequate provision in this regard. Secondly, in respect of the Representation, the key findings of the examination alongwith the details of remediation measures have been submitted to SEBI on July 29, 2020. Thirdly, in respect of another anonymous representation during the year ended March 31, 2020 against certain of its existing officials, the examination thereof is in progress. Fourthly, in respect of letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group, the Company had submitted its responses to SEBI on such observations dated August 14, 2019 and there is nothing outstanding on the part of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The statutory auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com

By Order of the Board of Directors N. Sivaraman Managing Director & Group CEO

financialem.epam.in



Dated: 28th August, 2020

Place: Shimla

New Delhi

Place: Mumbai

Dated: August 27, 2020

respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in.

(DIN: 00001747)

तेजाब से हमले में आठ लोग झुलसे

सीहोर, 28 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दो पक्षों में हुए मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे तेजाब फेंकने वाले दो आरोपियों सहित आठ लोग झुलस गए। यह घटना गुरुवार रात सीहोर से करीब 35 किलोमीटर दूर अहमदपुर थानांतर्गत खाईखेड़ा गांव में हुई।

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ८, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 CIN: L74899DL1981PLC015865 फोन नं.: +91-11- 41675000, फैक्स नं.: +91-11-41407120 वेबसाइटः www.niit.com; ईमेलः investors@niit.com

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को सायं 4.00 बजे आईएसटी में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत गठित नियमों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और सामान्य परिपन्न सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गईँ हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियां के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का कार्य 28 अगस्त, 2020 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.niit.com तथा स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट अर्थोत् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले मद से संबंधित दस्तावेज और एजीएम की सचना में संदर्भित दस्तावेज तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी को ई—मेल investors@niit.com पर अनुरोध भेजने पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर यथासंशोधित और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सामान्य बैठक पर सविवीय मानक (एसएस–2) के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा कही से भी अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग ('रिमोट ई—वोटिंग') के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी अपने सदस्यों को वीसी /ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई—वोटिंग'') के उपयोग द्वारा रिमोटली अपना वोट देने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस संबंध में प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में संलग्न नोट्स में दिये गये हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा अपना वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए

कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे सदस्यों में मतदान के अधिकार, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इंक्विटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 (प्रातः 9.00 बजे भा.मा.स) प्रारंभ होगी और सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक बार प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि रिमोट ई—वोटिंग और एजीएम में भी ई—वोटिंग से वोट दिया जाता है तो केवल रिमोट ई—वोटिंग को ही अंतिम माना जाएगा और एजीएम में ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार 15 सितम्बर. 2020 को शेयर धारित करते हैं. वे evoting@nsdl.co.ir अथवा investors@niit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है लेकिन, यदि वे रिमोट ई—वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो अपना वोट करने के लिये वे अपने वर्तमान यूज़र आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर, 2020 से शनिवार 5 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

मैसर्स. नित्यानंद सिंह एंड क. कंपनी सचिव के श्री नित्यानंद सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता सं एफसीएस 2668) को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच के लिये पर्यवेक्षक सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पछना चाहते हैं. वह अपने

पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता / फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास niitagmspeakers@niit.com investors@niit.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्टेशन मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 तक खुला रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य के रूप में है, वहीं पंजीकरण और एजीएम में भागीदारी के लिए योग्य होगा।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरधारक का नाम एवं पता, पैन/कोई अन्य पहचान एवं पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ लिखित अनुरोध कंपनी को investors@niit.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता अपडेट कराएं। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में ई—वोटिंग एवं भागीदारी के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरघारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013, से नामोदिष्ट ई–मेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कंपनी अपने शेयरधारकों को भुगतान किये जाने वाले अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है. तो निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती / कर कटौती करेगी। सदस्यों के लिए लाभांश पर टीडीएस के लिए जनरल एफएक्यू कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शेयरघारक जो कोई भी कर लाभ (कोई टीडीएस नहीं या कम दरों पर टीडीएस) कटाना चाहते हैं / उसके लिए हकदार हैं, वे कंपनी के पास niitdivtds@niit.com पर अपने दस्तावेज भेज सकते हैं जो कि 10 सितम्बर, 2020 तक या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यह कंपनी द्वारा सत्यापन/जांच के अधीन होगा और 10 सितम्बर, 2020 के बाद किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

सदस्यों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए एजीएम में अपने लैपटॉप के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट्स या मोबाइल हॉटस्टॉप के द्वारा जुड़े सदस्यगण अपने संबंधित नेटवर्क पर लेक्युएशन के कारण ऑडियो / विडियो न सुनाई देने की परेशानी हो सकती है। इसलिए उपरोक्त किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्हें स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन के साथ जुड़ने की अनुशंसा की जाती है ।

यह सूचना पूर्व में कंपनी की एजीएम के सबंध में जारी की जाती है और यह कंपनी की वेबसाइट एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इण्डियन ओवरसीज बैंक

INDIAN OVERSEAS BANK

नोटिसानुसार बकाया राज़ि का भुगताव नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिवस के अन्दर निम्न विवरणानुसार करे ।

प्रतिभृतिकरण और विलीय आस्तियों का पुनर्गंटन और प्रतिभृति अधिनियम (SARFAESI) अधिनियम 2002

कें खण्ड - 13 (2) के अन्तर्गत सुरक्षित ब्याज (प्रवर्तन) के नियम (3)1, 2002 के साथ पठनीय

जबकि अधोहस्ताक्षरी इण्डियन ओवरसीज बैंक के (SARFAES) अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत है और खण्ड-13(2)

नियम-३ के अनुसार सारी शक्तियों के उपयोग का अधिकारी है, खण्ड 1,5(2) के अधीन उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत हिमांड पोटिस जारी कातः है, विसके अनुसार सुचिकञ्च ऋणकर्ताओं कंप्रपकर्ता/जमापत्रदारों (तारपर्य ऋणकर्ताओं) से कि वह

2, उपरोक्त नोटिय डाक विधान द्वारा निरोत्तर अंकित करके वापस कर दिया गया तथा ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जपाननदारीं

द्वारा अव्योक्त कर दिया गया अत: बैंक चेतावनी के माध्यम से दियांद्र नोटिस का प्रकाशन करा रहा है अधोहाताक्षरी इस

कारणका इन नोटिसों को उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ऋगकर्ताओं/वंधनकर्ताओं/जमानतदारों के अन्तिम ज्ञात पते पर चस्पा

किये जाने का आदेश देती है उपरोक्त नोटिमों की प्रति अधोहम्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और पदि

ऋगकर्ताओं बंधनकर्ताओं जमानतरारों द्वारा यदि इच्छा हो तो उपरोक्त प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी मे किमी भी कार्यदिक्षम पर

3, उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, एक बार फिर ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानतदारों को नोटिस जारी की जाती है कि उपरोक्त

नोटिस के प्रकाशन तिथि से ६० दिवस के अन्दर निम्नलिखित प्रदर्शित अक्षवा भूगतान गाहिए ऋण एवं अन्य अधिलेखों के अनगीत

इण्डियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करें। ऋण भुगतान की सुरक्षा हेतु इण्डियन ओवरसीज बैंक पास सम्बन्धित पक्षीं द्वारा

विश्वक 08:07:2000

मात रूपचे मात्र)

"भगतान तिथि तक उपरोक्त वर्षित तिथि से संकिद्धगत दरों के अतिरिक्त क्याज दर पर भगतान करना होगा ।

कते एनआईआईटी लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 28 अगस्त, 2020

कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है।

निम्बलिखित सम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है। ऋगी / उधारकर्ता /

जमानतदारों का नाम व पता

(प्रोठ भीमती अनीता मिश्रा पानी अनुरा

इज्ञकपुर, जुनैदर्गज के पास, हाफिजपुर,

1. मेससे अपने इंडस्ट्रीज

(उधारकर्ता : बंधककर्ता)

figure)

जायेगी।

SUPREME COMMERCIAL **ENTERPRISES LIMITED** Regd. Office: Y-4-A-C. Loha Mandi.

Naraina, New Delhi - 110028 CIN: L51909DL1983PLC016724, Ph. No: 9350150766

nercial@gmail.co NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 4th September, 2020 at the registered office of the Company at Y-4 A-C. Loha Mandi, Naraina, New Delhi 110028 at 11:00 A.M. to approve and onsider Un-audited Financial Resul Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June

Further in pursuance of SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015, Trading Window for ealing in securities of the Company is closed from 28 August, 2020 and will emain closed up to 48 hours of the onclusion of the Board Meeting In view of the prevailing COVID-19 andemic situation across the country the AGM of the Company is going to be held in virtual mode in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 'SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the Notice of the Meeting Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e voting details will be send through electronic mode. Kindly update/registe

For further query, kindly contact a 9350150766 or e-mail to premecommercial@gmail.com

The information in the above notice is also available on the website of the Compan www.supremecommercial.co.in.

your e-mail id, if not registered.

By the Order of the Board For Supreme Commercial Enterprises Limited (Ishika Garg

Company Secretary

मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजी. कार्या.: एसढी—65, टॉवर अपार्टमेंट्स पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 **फोनः** 011-27314646 CIN: L67120DL1981PLC179487

वेबसाइटः www.maxheights.com ईमेल आईडी: info@maxheights.com

सूचना

Place: Delhi

- शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), भारत सरकार औ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वार जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 17/2020, 20/2020 तथा अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को दोपहर 1.00 बजे आईएसटी में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमो (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष
- 2019—20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयर-धारकों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पत कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत 39वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20
- के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.vanicommercials.com) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब् कराई जाएगी। अधिनियम की घारा 108 के साथ पठित कंपर्न (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के संदर्भ में शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट रिमोटली देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप और भौतिक
- प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोटली वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया शेयरधारकों के लिए सचन ई—मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने
- संगत डिपॉजिटरीज के पास अपना ई—मेल पता एवं मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराएं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे लिंक admin@skvlinerta.com के अंतर्गत कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के पास अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल नम्ब

कृते मैक्स हाइट्स इन्फ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड तिथिः 28 अगस्त, 2020 वंदिता अरोड़ स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव

लाईन, आजमगढ़ - 276001

पान - 05462-246842

का दिनांक

पंजीकृत कराएं।

हस्ता./-

मेसर्स हिम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

(परिसमापन में)

CIN U27205DL2011PTC218461 परिसमापक का पता : सी.ए. रेशमा मित्तल, सी-51, आरडीसी राजनगर, गाजियाबाद-201002, उत्तर प्रदेश, भारत ई.मेल : irp.himsteel@rrinsolvency.com

आईबीसी 2016 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना

न्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत आम जनता को एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है वि मैसर्स हिम स्टील प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की निम्न आस्तियों एवं संपत्तियों जो कि परिसमाप संपदा का भाग हैं उन्हें परिसमापक द्वारा लाभकारी कारोबार संस्थान रूप में बिक्री हेतु हैं। आस्तियों को सेवा प्रदाता मैसर्स ऑजियो (Augeo) एसेट मैनेजमेंट कंपनी (123done.in) द्वारा ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा

नीलामी की तिथि एवं समय	09.09.2020 से अप. 3.00 बजे से अप. 5.00 बजे (5 मिन के असीमित विस्तार सहित)		
ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि	07.09.2020 को अप. 5.00 बजे से पहले		
निरीक्षण की तिथि एवं समय	परिसमापक से पूर्व समय लेकर 06.09.2020 (पूर्वा. 9.00 बजें से अप. 7.00 बजें तक) को अथवा उससे पहले। संपर्क व्यक्ति (श्री दीपक मित्तल +91-9810371373)		
विस्तत ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज हेत वेबसाइट : https://eauction.123done.in			

विस्तृत ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज हेतु वेबसाइट : https://eauction.123done.in					
आस्तियों का विवरण	बिक्री की	आरक्षित	जमा धरोहर	बोली वृद्धि	
आस्तिया का विवरण	विधि	कीमत	राशि	मूल्य	
		(आईएनआर)	(आईएनआर)	(आईएनआर)	
पैच नं. 1, फेज-2, गोवलथाई, इंडस्ट्रीयल		18,67,00,000/-	93,35,000/-	5,00,000/-	
एरिया,जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में स्थित		रु. (केवल अठारह	रु. (केवल	रु. (केवल पांच	
भूमि व भवन सहित इसकी सभी आस्तियों सहित		करोड़ एवं सतासठ	तिरयानबे लाख एवं	लाख रुपये)	
एक लाभकारी कारोबार संस्थान के रूप में कार्पोरेट		लाख रुपये)	पैंतीस हजार रुपये)		
डेब्टर की बिक्री। भूमि क्षेत्र 46,968 वर्ग मी.		,			
संपति का निर्माण क्षेत्र 150.92 वर्ग मी. है।					
प्लांट एवं मशीनरी : इंडक्शन फरनेस 7200					
किवा. साथ में मेगाथर्म पैनल, एमको मेक					
ट्रांसफार्मर, डबल सैकेंडरी 8.4 एमवीए, 02					
क्रूसीबल 18 एमटी क्षमता, लैडल, टंडिश, स्लैग					
बॉक्स, रीहीटिंग फरनेस, रिफंग मिल, इंटरमीडिएट					
मिल स्टैंड, कॉंटिनूअस फिनिशिंग मिल, कूलिंग					
बेड, एचटी ट्रांसफार्मर्स 20/25 एमवीए, ईओटी					
क्रेन्स डबल गिरडर क्षमता 5					
एमटी/10एमटी/15एमटी/40एमटी, वे ब्रिज					

र्द-नीलामी की निरुप एवं शर्वे निम्नानमार है :-

 ई-नीलामी ''जैसे है जहां है'' ''जैस है जो है'' एवं ''जो भी हे जहां है के आधार पर'' की जाएगी जैसे वि बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स आजियो ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (www.123done.in) द्वारा बिना किर्स तरह की वारंटियों एवं क्षतिपर्ति के है।

2. बोलियां. निर्धारित प्रारूप में परिसमापक को (ऑनलाइन अथवा हार्ड प्रति) जमा करायी जाएगी। संपर्ण ई-नीलार् प्रक्रिया की विस्तृत नियम व शर्तों सहित बोली प्रपत्र https://e-auction.123done.in/. की वेबसाइट डाउनलोड किया जा सकता है।

> रेशमा मित्तल हिम स्टील्स प्राइवेट लि. के विषय में परिसमापर आईबीबीआई रजि. नं. IBBI/IPA-001 /IP-P00297/2017-18/10541

पता : आरआर इन्सांल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएल दिनांक : 28.08.2020 सी-51, आरडीसी, राजनगर गाजियाबाद-201002 ई-मेल आईडी : irp.himsteel@rrinsolvency.com स्थान : गाजियाबाद

R ICRA

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749 पंजीकृत कार्यालय: 1105, कैलाश बिल्डिंग, 11वां तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली-110 001, **टेलीफोन नं.**: +91-11-23357940-45 वेबसाइट: www.icra.in ई-मेल आईडी: investors@icraindia.com

उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 (संयुक्त रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन म एजीएम के आयोजन की सूचना ("एजीएम सूचना") में निहित व्यवसाय के निष्पादन आईसीआरए लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार 23 सितम्बर, 2020 को अप. 4:00 बजे (आईएसटी) में आयोजित की जाएगी।
- कम्पनी ने एनएसडीएल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई-वोटिंग'') द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की सेवाएं ली है। सदस्यगण रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स के उपयोग द्वारा शेयरहोल्डर/मैम्बर के अंतर्गत https://www.evoting.nsdl.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरहोल्डर/मैम्बर लॉगइन में उपलब्ध होगा जहां कम्पनी का ई-वोटिंग इवेन्ट नम्बर ("ईवीईएन") प्रदर्शित होगा।
- एमसीए परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 28 अगस्त 2020 को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते एनएसडीएल और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''एक साथ **''डिपॉजिटरीज**' के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टांसफर एजेंट ("रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट") के पास पंजीकत हैं। एजीए सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट <u>www.icra.in</u> के निवेशक संबंध खण्ड पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com के संगत खण्ड
- बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 ('कट-ऑफ तिथि') को व्यवसाय घंटे की समाप्ती पर य तो भौतिक प्रारूप या अमूर्त प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण एनएसडीएल के ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
- (क) एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय का निष्पादन ई-वोटिंग या रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है:
- रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 20 सितम्बर, 2020 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ हं और मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी;
- (ग) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं दिया है, वे किसी भी प्रतिबंध की अनुपस्थिति के अधीन एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचना में दी गई है;
- (घ) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को कम्पनी के शेयर धारण करता है, वह <u>evoting@nsdl.co.in</u> या delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन ऑईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम शामिल होने के लिए योग्य होंगे। तथापि, उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यगण वोटिंग के लिए केवल एक विकल्प अर्थात रिमोट ई-वोटिंग य एजीएम में ई-वोटिंग का विकल्प चुन सकते हैं। यदि दोनो माध्यम से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई-वोटिंग का अंतिम माना जाएगा और एजीएम में ई-वोटिंग पर विचार नहीं
- (च) एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध है। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400 013, से नामोदिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नं +91 22 24994545, +91 22 24994559 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो कि ई-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटान करेंगे। सदस्यगण कम्पनी के कम्पनी सचिव को ई-मेल investors@icraindia.com या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पते पर भी लिख सकते हैं।
- 5. ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया: भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कम्पनी या रजिस्टार एवं शेयर

ट्रांसफर एजेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करके इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे जितना जल्दी हो अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीकृत कराएं।

6. लाभांश प्राप्त करने के लिए मेंडेट पंजीकरण की प्रक्रिया:

दिनांक : 28 अगस्त, 2020

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास अपने बैंक खाता विवरणों को अपडेट कराएं या इसे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास अपडेट कराने के लिए लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करें और

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया को भली-भांति पढ लें। निदेशक मंडल के आदेशानुसा

> (एस. शाकेब रहमान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



CIN-L72200RJ2000PLC016272 | Ph: +91-744-3040000 | website: www.cpil.in | E-mail: investors@cpil.in

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30,2020 (₹ in Lakhs Excent Per Share Data)

PARTICULARS	Quarter Ended (30/06/2020)	Year Ended (31/03/2020)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2019)
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total Income from Operation (net)	1,381.26	10,461.29	2536.56
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	751.61	2,718.43	849.95
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	751.68	2,718.60	850.06
Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,816.29	1,816.29	1816.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (EPS)			
Basic & Diluted EPS	4.14	14.97	4.68
Notes:			

Place: Kota (Rajasthan)

Date: August 28th, 2020

Summarised Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30th, 2020 is as under

(₹ in Lakhs Except Per Share Data)

PARTICULARS	Quarter Ended (30/06/2020)	Year Ended (31/03/2020)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2019)
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total Income from Operatiosn (net)	484.49	5,214.18	1653.43
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	333.53	1,642.92	483.72
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	333.53	1,642.92	483.72
Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,816.29	1,816.29	1816.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (EPS)			
Basic & Diluted EPS	1.84	9.05	2.66
2 The IND-ΔS compliant financial results for the Quarter ended Jun	e 30 th 2020 have he	en subjected to limited r	eview However the

- management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results provide true and fair view of Company's
- The above results, duly reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors in their meeting held on August 28th, 2020.
- The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind-AS) w.e.f 01.04.2017 as notified by the Ministry of Corporate Affairs and accordingly these financial results for the Quarter ended June 30,2020 are in compliance with Ind AS.
- The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30°, 2020 filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpil.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR CAREER POINT LIMITED

PRAMOD MAHESHWARI

Chairman, Managing Director and CEO DIN-00185711

ICRA **ICRA** Limited

Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.:+91-11-23357940-45 • Website: www.icra.in • Email ID: investors@icraindia.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)
1	Total income from operations	4,249.79	20,778.26	5,137.7
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,364.44	9,205.20	2,335.8
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,364.44	9,205.20	2,335.8
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	998.27	6,497.98	1,491.1
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,041.37	6,444.14	1,480.8
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.1
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		57,287.92	
8	Earnings per share (of ₹10/- each)			
	Basic:	10.38	67.55	15.5
	Diluted :	10.38	67.55	15.5

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

	(
Sr. No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2020 (Unaudited)	Year ended March 31, 2020 (Audited)	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)
1	Total income from operations	6,961.89	32,108.84	7,703.63
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	2,329.36	13,147.59	3,144.98
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,329.36	13,147.59	3,144.98
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,704.89	9,723.77	2,053.68
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	1,737.71	9,661.24	2,042.48
6	Equity share capital	965.12	965.12	965.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		69,196.35	
8	Earnings per share (of ₹10/- each)			
	Basic:	17.48	99.98	21.10
	Diluted ·	17.48	99.98	21.10

Place: Mumba

Dated: August 27, 2020

NOTE: 1. As disclosed earlier, the Company has been in the process of addressing certain ongoing matters First, in respect of an adjudication proceeding ("Adjudication Proceeding") initiated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the credit ratings assigned to one of the Company's customers and the customer's subsidiaries, SEBI issued an order imposing a penalty of ₹ 25 lakh under section 15HB of the SEBI Act, 1992 on the Company, Further, SEBI issued a Show Cause Notice ("SCN") for enhancement of penalty amount. The Company has filed an appeal challenging the adjudication order before the Securities Appellate Tribunal (the "SAT") and deposited the penalty amount of ₹ 25 lakh without prejudice to such appeal. The said appeal is pending before the SAT. Both the matters are sub-judice and the Company has made adequate provision in this regard. The Company has also been cooperating with government agencies and responding to their queries in relation to this matter.

their gueries in relation to this matter Second, the Board of Directors ("Board") had appointed external experts to examine and report on anonymous representations making certain allegations against two former officials which were forwarded to the Company by SEBI ("Representations"). During the examination of the aforesaid Representations, certain counter allegation were made by one of the two former officials, for which the Board appointed a second set of external experts, to

examine such allegations. The external experts examining the Representations had concluded their examination and the findings indicated that the conduct of the aforesaid officials was not in conformity with certain applicable regulations and Company

policies relating to credit rating activities. The aforesaid officials are no longer in the employment of the Company The key findings alongwith remediation measures have been submitted to SEBI on July 29, 2020. The external experts have expressed that no evidence was found suggesting ex-facie that the ratings examined as part of the examination were inflated (i.e. were unsupported by ratings analysis).

Further, as per external experts, this is subject to the limitation that the determination of whether or not any ratings are supported by ratings analysis is a qualitative technical matter that was beyond the scope of the examination, as the examination was not aimed at reviewing the appropriateness of rating opinions on merits. The findings of the second set of external experts do not indicate any material deficiencies with applicable regulations and Company policies.

The findings of the external experts have been presented to the Board members. The Board has taken appropriate measures in the best interest of the Company and its various stakeholders with regard to the outcome of the examination.

Third, the Company directly received another anonymous representation during the year ended March 31, 2020 against certain of its existing officials and the examination thereof is in progress. Fourth, the Company had received a letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group.

The Company had submitted its responses to SEBI on such observations dated August 14, 2019. There has been no further development in this matter. While the Company has made a provision for penalty on a best estimate basis with regards to the Adjudication Proceeding, the impact of uncertainties arising from the above matters is currently unascertainable. However, based on the legal opinions given by external counsels, the Company does not foresee an action from the regulator(s) that could adversely affect the functioning of the Company.

Management's response to comments of the statutory auditors in the Limited Review Report With regards to comments of the statutory auditors in paragraph 4 of the limited review report, pertaining to ongoing matters, it is submitted that – Firstly, in respect of matters relating to Adjudication Proceeding, the

same are sub-judice and the Company has made adequate provision in this regard. Secondly, in respect of the Representation, the key findings of the examination alongwith the details of remediation measures have been submitted to SEBI on July 29, 2020. Thirdly, in respect of another anonymous representation during the year ended March 31, 2020 against certain of its existing officials, the examination thereof is in progress. Fourthly, in respect of letter from SEBI seeking comments on observations made in the interim report dated July 15, 2019 prepared by Grant Thornton India LLP, which was commissioned by the IL&FS group, the Company had submitted its responses to SEBI on such observations dated August 14, 2019 and there is nothing outstanding on the part of the Company.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financia Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The statutory auditors of the Company have carried out limited review of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 and a qualified report (in respect of matter described in Note-1 above) has been issued. The full format of the Quarterly Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites of National Stock Exchange and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and under the Investors section on the Company's website www.icra.in

> By Order of the Board of Directors N. Sivaraman

Managing Director & Group CEO (DIN: 00001747)

हो वा उल्लंघन का प्रेरक हो , अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कारावास अथवा जुर्मान का धाणे होगा।

दिनांकः: 28,08,2020 स्थानः: आजमगढ्

आमीत्रत किया जाता है कि वे समयानुमार स्वयं ही उपरोक्त चन्धक सम्मतियों का निस्तारण सुनिज्ञित करेंगे। ऑक्त ऋणकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/जमानलदारों द्वारा वन्धक सम्पत्तियों को किसी भी तरह की विक्री/पट्टा पा तदानुसार विना इण्डियन ओवरसीज बैंक को स्वीकृति के प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति अधिनियमों के प्रावधानों या अनुबंधों का जल्लंघन करता

5, इसके अतिरिक्त अधिनिथम 13 के उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतरीत ऋणकर्ताओं/वंधनकर्ताओं/जमानतदारों का ध्यान

4, अगर ऋषाकर्ताओं/बंधनकर्ताओं/त्रमानतदारों इपिडयन ओकरमीत बैंक को उपरोक्त भूगतान करने में असफलता होता है तो

इंपिड्यन ओवरबीज वैंक उपरोक्त कंधक सम्पन्ति के खिलाफ के (SARFAESI) नियम के अंतर्गत खपड़ 13(4) के अर्धीन

ऋगकर्ताओं/बंधकर्ताओं/जमानतदारों के सम्पूर्ण जोखिन लागत व परिणाम के साथ अधिग्रहण की कार्यवाही मुनिश्चित की

प्राधिकत अधिकारी- इण्डियन ओवरसीज वैंक

बंधक संपत्ति का विवरण

गदर आजयगढ़, श्रीयती अनीता पिश्रा पर्ल

अनुराग मिधा के नाम रक्षित, क्षेत्रफल 1818

पुर्व:ओमली शांति किरण व शीमती गेशमती

1,15,52,060/- जिमीन व विस्टिंग का सामयिक बंधक प्लॉट 13,07,3030

(एक करोड़ चंद्रह नं० 182, इशकपुर, जुनैदर्गज के पास, लाख बायन हजार इाफिलपुर, परगना - निजामाबाद, नहसील

चीक्टरी

पश्चिम्बयः सकः रोड

उतार - इरदेख की जमीन

दक्षिण: श्रीमती सती की जमीन